

महाशिवरात्रि

घाटकोपर शाखा के पीक पार्क के प्रांगन में सभी ब्रह्माकुमारी भाई बहनों ने ८२वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के निमित्त बहुत विशाल भव्य दिव्य महोत्सव मनाया.

इस कार्यक्रम की विशेषता यह रही की 20 फिट ऊँचा शिवलिंग बनाया गया | इस शुभ अवसर पर घाटकोपर निवासियों के लिए दो स्पर्धा रखी गयी एक शिवलिंग बनाने की और दूसरी १ मिनिट में ज्यादा से ज्यादा दीप प्रज्वलन करने की स्पर्धा | भक्तों के लाभार्थ शिव भोलानाथ के चैतन्य चरित्र के दर्शन की झांकी रखी गयी | शांति का अनुभव कराने 'JUST A MINUTE' स्टाल भी रखा गया जहाँ सभी ने एक मिनिट में शांति का अनुभव किया | राजयोग का अनुभव कराने 'राजयोग अनुभूति कक्ष बनाया गया | इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन | इन सभी स्टाल्स का उद्घाटन समारोह 11 फरवरी को शाम को रखा गया, घाटकोपर शाखा के अध्यक्ष ब्रह्माकुमारी नलिनी दीदीजी तथा राजयोगी ब्रह्माकुमारनिकुंज भाईजी, ब्रह्माकुमारी शकु दीदी तथा समाज के गणमान्य व्यक्तियों के करकमलों से संपन्न हुआ |

12 फरवरी को महाआरती रखी गयी जिसमें बहुत रुचि से सभी नागरिकोंने ने भाग लिया | 13 तारीख फरवरी को Capacite Structuters के चेयरमैन - विनायक कुलकर्णीजी, भारती ज्वेलर्स के वसंत भाई, वेदांत कुटीर के जानानंद स्वामीजी , जन मन गन स्कूल एवं कॉलेज, डोम्बिविली के प्रिंसिपल राजकुमारजी, LD ग्रुप के ललित धर्माणी, प्रभाग समिति अध्यक्ष श्री सुरेश पाटील जी ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई | शांति का सन्देश देने हेतु स्लोगन लगाकर गुब्बारे उड़ाये गए. ब्रह्माकुमार गायक दिलीप जी ने हृदयस्पर्शी गीतों की प्रस्तुति द्वारा कार्यक्रम में रौनक बढ़ाई, सभी परमपिता परमात्मा की स्नेहभरी याद में समा गए |